



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आषाढ, 1941 (श०)

संख्या- 512 राँची, शुक्रवार,

5 जुलाई, 2019 (ई०)

### राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

आदेश

02 जुलाई 2019

संख्या-03नि0प0-32/2016 रा0नि0आ0 694-- यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्व्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायौचित्य कारण नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, पाकुड़ के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65'क' 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से अगले तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाता है।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	पाकुड़	XI पाकुड़-(01)	निरूपा टुडू, ग्राम-लिट्टीपाड़ा, पंचायत-लिट्टीपाड़ा, प्रखण्ड-लिट्टीपाड़ा, जिला-पाकुड़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		XI पाकुड़-(02)	पिनाकी रंजन साहा, ग्राम-बड़ा सरसा, पंचायत-बड़ा सरसा, प्रखण्ड-लिट्टीपाड़ा, जिला-पाकुड़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		XI पाकुड़-(02)	रिंकू कुमारी, ग्राम-नवाडीह, पंचायत-नवाडीह, प्रखण्ड-लिट्टीपाड़ा, जिला-पाकुड़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4		XI पाकुड़-(03)	प्रमिला टुडू, ग्राम-पचुवाड़ा, पंचायत-पचुवाड़ा, प्रखण्ड-आमड़ापाड़ा, जिला-पाकुड़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5		XI पाकुड़-(04)	सोहराब अंसारी, ग्राम-गोविन्दपुर, पंचायत-हाथकाठी, प्रखण्ड-हिरणपुर, जिला-पाकुड़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
6		XI पाकुड़-(04)	प्रमोद कुमार दास, ग्राम-डांगापाड़ा, पंचायत-डांगापाड़ा, प्रखण्ड-हिरणपुर, जिला-पाकुड़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
7		XI पाकुड़-(07)	राजु अंसारी, ग्राम-सोनाजोड़ी, पंचायत-सोनाजोड़ी, प्रखण्ड+जिला-पाकुड़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
8		XI पाकुड़-(07)	मोजीजोन बीबी, ग्राम-रघुनन्दनपुर उर्फ चाँचकी, पंचायत-रघुनन्दनपुर उर्फ चाँचकी, प्रखण्ड+जिला-पाकुड़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
9		XI पाकुड़-(09)	बेजवाला दासी, ग्राम-चाँदपुर, पंचायत-चाँदपुर, प्रखण्ड+जिला-पाकुड़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

10	XI पाकुड़-(09)	मरांगमय मुर्मू, ग्राम-मटियापहाड़ी, पंचायत-कोलाजोड़ा, प्रखण्ड+जिला-पाकुड़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
11	XI पाकुड़-(10)	मुमताज बीबी, ग्राम-गंगारामपुर, पंचायत-भवानीपुर, प्रखण्ड+जिला-पाकुड़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
12	XI पाकुड़-(11)	गुलाम मुस्तफा, ग्राम-चैगाडांगा, पंचायत-चैगाडांगा, प्रखण्ड+जिला-पाकुड़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
13	XI पाकुड़-(12)	उषाकिरण मरांडी, ग्राम-शहरपुर, पंचायत-चंडालमारा, प्रखण्ड-महेशपुर, जिला-पाकुड़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
14	XI पाकुड़-(12)	तेरेसा मुर्मू, ग्राम-पकड़ीपाड़ा, पंचायत-पोखरिया, प्रखण्ड-महेशपुर, जिला-पाकुड़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
15	XI पाकुड़-(12)	साक्षी सपना मरांडी, ग्राम-चीलगाँव, पंचायत-शहरग्राम, प्रखण्ड-महेशपुर, जिला-पाकुड़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
16	XI पाकुड़-(14)	स्टेनशिला सोरेन, ग्राम-हाथीमारा, पंचायत-तेलियापोखर, प्रखण्ड-महेशपुर, जिला-पाकुड़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
17	XI पाकुड़-(15)	मोजेश टुडू, ग्राम-उपरमहुलबोना, पंचायत-अर्जुनदहा, प्रखण्ड-महेशपुर,,जिला-पाकुड़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
18	XI पाकुड़-(16)	राजेन्द्र मुर्मू, ग्राम-धावाडंगाल, पंचायत-बासेतकुण्डी, प्रखण्ड-पाकुड़िया, जिला-पाकुड़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

**ह०/-(अस्पष्ट),**

संयुक्त सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
झारखण्ड, राँची।

-----